



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 22, शुक्रवार, शाके 1941–सितम्बर 13, 2019

Bhadra 22, Friday, Saka 1941–September 13, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 11, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9735 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Bhilwara has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Bhilwara. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government

कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)"प्रपत्र क"

क्र.सं.	वार्ड	वार्डों का सीमांकन का विवरण
1	01	पुर में पानी की टंकी के पास उपर चढ़ाव में कोने पर बट्टीलाल आचार्य का मकान यहां से दक्षिण दिशा में शंकर छोपा के मकान तक यहां से पश्चिम दिशा में कुए के पास होकर नथमल चोरडिया के मकान ओर गली- गली होकर दर्जियों के मन्दिर तक यहां से दक्षिण दिशा में जैन पंचायती नोहरे तक एवं पूर्व दिशा में पतली गली में होकर कन्या पाठशाला के सामने हरकलाल नागोरी के मकान तक यहां से पूर्व दिशा में श्री उगम चन्द्र लोढ़ा एवं शिवनारायण लोयमा के मकान तक एवं दक्षिण दिशा में श्री उपाध्याय गली में होकर स्कूल के पास गणेश लाल असावा का खण्डहर मकान यहां से सड़क-सड़क पूर्व दिशा में पटवार घर कार्यालय तक एवं गंगापुर जाने वाली सड़क को क्रॉस कर बैजनाथ लोयमा के मकान को मिलाते हुए परिषद सीमा तक यहां से कुमारिया खेड़ों को छोड़ते हुए परिषद सीमा होकर रीको एरिया को लेते हुए बिलिया गांव के मेजा फीडर स्टोर तक यहां से परिषद सीमा पिलर नं 0 11 तक यहां से मंगलपुरा, लक्ष्मीपुरा को शामिल कर एवं परिषद सीमा में बने सभी मकानों

		को शामिल कर मैगजीन तक यहां से सडक-सडक होकर बजरंगपुरा में मुख्य सडक पर शंकर लाल विश्नोई के मकान को शामिल करते हुए खेल मोहल्ला सडक होते हुए जबीर मोहम्मद के मकान तक यहां से दक्षिण दिशा में मुड़कर मुनीर खां पठान के मकान को बांये हाथ लेते सडक-सडक पूर्व दिशा में फकीर मोहल्ला की सडक उसमान मोहम्मद के मकान के सामने स्थित कोने के मकान तक यहां से पुनः दक्षिण में घूमकर पानी की टंकी के पास श्री बद्रीलाल आचार्य के मकान तक की कुलिया बांयी बस्ती से पुर में पानी की टंकी तक।
2	02	पुर में पानी की टंकी के पास हनुमान मन्दिर से उत्तर दिशा में फकीर मोहल्ले की सडक तक वहां से पश्चिम दिशा में मुड़कर खेल मोहल्ला चौक तिराहा तक अर्थात मुनीर खां के मकान को दांये छोड़ते हुए उत्तर में मुड़कर पुनः जबीर मोहम्मद के मकान को दांयी तरफ छोड़ते हुए खेल मोहल्ला बजरंगपुरा की ओर जाने वाली सडक-सडक मुख्य गंगापुर सडक तक यहां से पुर्व दिशा में सडक-सडक इन्द्रमल विश्नोई के मकान को लेते हुए चांद खां का मकान व पूर्व दिशा में सडक-सडक सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर तक। यहां से खेतों में होते पातोला महादेव जाने वाली सडक पर गोरधन लाल पलोड के खेत के पीछे होते हुए पातोला महादेव सडक पर वटवृक्ष तक। यहां से पश्चिम दिशा में होकर तालाब के पास माण्डल जाने वाले मार्ग तक यहां से पूर्व दिशा में सडक-सडक होते हुए नृसिंह द्वारे को दांये हाथ छोड़ते हुए उपर चढ़ाव में श्री रत्न लाल सुनार के सामने छीपों के मन्दिर तक यहां से सडक-सडक पूर्व दिशा में श्री सुवा लाल बोरदिया, श्री चुन्नी लाल विश्नोई और सडक क्रॉस करके चौथ माता मन्दिर तक यहां से दक्षिण दिशा में चौपड़ बाजार पर श्री मोती लाल मेहता की दुकान तक यहां से पूर्व दिशा में सडक-सडक वापस पानी की टंकी पास श्री हनुमान मन्दिर तक की कुलिया बांयी बस्ती से पुर में पानी की टंकी तक।
3	03	पुर में राजस्थान बैंक के पास गणपतलाल पाराशर व सम्पतलाल सिध्वी के मकान से दक्षिण दिशा में सडक क्रॉस कर कन्हैया लाल पाराशर के मकान को शामिल कर सडक-सडक महलों के चौक में हरिशंकर तिवाड़ी के मकान तक। यहां से पश्चिम दिशा में सडक-सडक चलकर बायसी मौहल्ला की सडक तक अर्थात नंदलाल जागेटिया के सामने से पालडिया के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में मुड़कर हिंगड़ मौहल्ले को शामिल करते हुए माहेश्वरी पंचायती नोहरे तक यहां से सडक क्रॉस करके श्री चतरसिंह बुलिया का मकान यहां से दक्षिण दिशा में सडक-सडक होकर गणेश मन्दिर व पश्चिम में खुरे पर उत्तरते हुए श्री बिरदी चंद पालडिया के मकान तक यहां से उत्तर दिशा में सडक-सडक दूतों के मन्दिर खारोल मन्दिर होकर खटीकों के मौहल्ले में होते हुए कबूतरों के चबुतरे को बाएँ हाथ छोड़ते हुए सडक-

		<p>सडक पश्चिम दिशा में चांद खां सोरगर के मकान व नहर तक। यहां से इसी सडक पर श्री हनुमान मन्दिर व हीरा, हेमा भास्मी का मकान यहां से पश्चिम दिशा में सडक-सडक होकर नीलकंठ महादेव मन्दिर को छोड़ते हुए तालाब के पुरे क्षेत्र को लेकर मांडल जाने वाले रास्ते तक। यहां से पूर्व दिशा में श्री बैजनाथ महादेव मन्दिर व सडक क्रॉस करके नरसिंहद्वारे को मिलाते हुए उपर चढाव में पूर्व दिशा की तरफ मारेला गली, काजी गली को क्रॉस करते हुए रत्न लाल सुनार के मकान तक। यहां से सडक क्रॉस कर पूर्व की दिशा में छीपों के मन्दिर के सामने श्री नन्दलाल माली का मकान यहां से पूर्व दिशा में ही श्री भरवलाल छीपा के मकान को मिलाते हुए दक्षिण दिशा में मुड़कर श्री गहरी लाल कोठरी के मकान तक यहां से दक्षिण दिशा में ही चोपड़ौं। बाजार के पास गुलाब पिनारा का मकान व सडक क्रॉस करके मोहन मोची की दुकान तक। यहां से पूर्व दिशा में कोने पर श्री सोनलाल नाई के मकान तक। यहां से पश्चिम दिशा में श्री मोतीलाल मेहता के मकान को मिलाते हुए पश्चिम दिशा में ही दर्जी मन्दिर वाले सामने मकान तक। यहां से सडक क्रॉस करके दक्षिण दिशा में वापस श्री पाराशर के मकान तक। इस वार्ड के साथ माली खेड़ौं बलिया खेड़ौं अधरशिला के पास नया जाटो का खेड़ौं की समस्त आबादी और इस क्षेत्र में बने मकानत परिषद सीमा से पुर में राजस्थान बैंक तक।</p>
4	04	<p>भीलवाड़ा गंगापुर सडक पर पुर बस स्टैण्ड पर श्री भैरुनाथ का चबुतरा यहां से सडक क्रॉस करके पूर्व दिशा में श्री भैरुलाल उपाध्याय एवं श्री जमनाशंकर तिवाड़ी के मकान के पीछे होते हुए खेतों में बने हुए मकानों को लेकर पश्चिम दिशा में शमशान घाट रास्ते तक। यहां से इसी रास्ते होकर उत्तर दिशा की तरफ गंगापुर सडक पर वट वृक्ष व श्री झाडोलिया का मकान यहां से सडक क्रॉस करके सेकंडरी स्कूल का कोना यहां से श्री मोड़लाल तेली की होटल व पश्चिम दिशा में सडक-सडक श्री हनुमान व श्री शंकर मन्दिर तथा आगे पर तलाई तक। यहां से इसी तलाई को लेकर पीछे वाले रास्ते को लेकर श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर तक। यहां से पूर्व दिशा में श्री सम्पत सिंह बुलिया के खेत के पास होकर सडक क्रॉस करके कबूतरों के बने हुए चबूतरे तक। यहां से उपर चढाव में चढ़कर खटीक मौहल्ला के मध्य में होते हुए सडक-सडक दक्षिण दिशा में श्री रामचन्द्र खाती के मकान तक। यहां से उपर चढाव में श्री नैनावटी मन्दिर को लेते हुए श्री नन्दलाल जागेटिया के मकान तक। यहां से रोड क्रॉस कर पूर्व दिशा में चढाव चढ़कर महलों तक। यहां से उत्तर दिशा में व्यास मौहल्ला में बांयी ओर के मकानों को छोड़ते हुए डॉ. श्री एनएस जागेटिया के नोहरे को शामिल कर पुनः सडक तक यहां से पूर्व दिशा में घूमकर श्री सोहनलाल सुनार के मकान तक यहां से सडक क्रॉस की श्री हीरालाल बुलिया व श्री नाहर के मकान तक</p>

		यहां से पूर्व दिशा में ही पतली गली में होकर कन्या पाठशाला तक व कोने पर श्री बंशीलाल तिवारी के मकान तक। यहां से पूर्व दिशा में सड़क-सड़क श्री समतमल तिवाड़ी और दक्षिण दिशा में स्कूल के पास श्री सोहनलाल नाकेदार के मकान तक। यहां से सड़क क्रॉस करके पूर्व वापस बस स्टैंड पर श्री श्रीरामचन्द्र चबूतरा। इस वार्ड में खारोलिया खेड़ों, जाटों का खेड़ों, व कुम्हारिया खेड़ों, तथा इस क्षेत्र के परिषद सीमा में बने मकान शामिल व भीलवाड़ा गंगापुर सड़क तक।
5	05	गंगापुर रोड स्थित गुरुजी की होटल से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण के कोने से बाएँ मुड़कर हनुमान मन्दिर तक यहां से मन्जिल मदनलाल लौहार चतुर सिंह मांगीलाल बलाई बाबूलाल सुथार आदि के मकानों को शामिल करते हुए सुपरे खां के मकान के बाएँ लेते हुए ग्रिड व बाउंड्री वाल १८शान की बाउंड्री के सहारे-सहारे पश्चिम दिशा की ओर रिको एरिया फोर्थ फेस को शामिल करते हुये यहां से वापस दक्षिण दिशा की ओर घुमते हुए मुख्य सड़क की पुलिया तक से भीलवाड़ा रोड के सहारे-सहारे ग्रिड स्टेशन को बाएँ शामिल करते हुए गुरुजी की होटल तक।
6	06	चित्रगुप्त सर्कल से प्रारम्भ कर राज. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कॉर्नर से बाएँ घुम कर चम्बल परियोजना के क्वार्टर को दाँये छोड़ते हुए यासिका हॉस्पिटल एसटेक कालेज को बाएँ शामिल कर देवनारायण सर्कल को पार कर पुर मुख्य सड़क से बाएँ और घुमकर सूमो टेक्सटाईल लिमिटेड के सुमो टेक्सटाईल फैब्रिक से बाएँ घुम कर परिषद सीमा पर चलकर पुनः चित्रगुप्त सर्कल तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती से चित्रगुप्त सर्कल तक
7	07	आटूण रोड पर नगर परिषद सीमा से प्रारम्भ कर आशिका पार्क के कॉर्नर तक वहा से बाएँ घुमकर श्री कृष्ण डेयरी को शामिल करते हुए यहां से दाँये घूमकर शान्ति टावर को दाँये छोड़कर रिंग रोड पार करके रिंग रोड वाले बालाजी के शामिल कर नहर के सहारे-सहारे रावत गार्डन के मध्य पर बनी नहर की पुलिया पर दाँये घुमकर शिव मन्दिर व डेयरी बूथ को शामिल कर 5 ए 15 चन्द्रशेखर आजाद नगर के कोने तक यहां से बाएँ घूमकर सामुदायिक भवन शामिल करते हुए बाएँ घुमकर नहर की पुलिया तक यहां से नहर के सहारे-सहारे आगे बढ़ते हुए सिटी कानवेन्ट स्कूल को दाया छोड़ते हुए के 38 आजाद नगर को शामिल कर एवं यहां से दाँये घूमकर के 103 के कॉर्नर से बाएँ घूमकर के 93 को शामिल करते हुए यहां से दाँये घूमकर पार्क को शामिल करते हुए अगले तिकोने पार्क को शामिल करते हुए व मुख्य सड़क तक यहां से बाएँ घूमकर महाप्रज्ञ सर्कल रोड पर आगे बढ़ते हुए श्री

		नाथ ट्रांसपोर्ट के सामने के पार्क के कॉर्नर तक यहाँ से बाएँ घूमकर पार्क को शामिल करते हुए जे. 60 को शामिल करते हुए जे. 49 तक जहा से दाँये घूमकर जे. 40 को दाँये छोड़कर हाईटेन्शन लाइन के सहारे-सहारे नहरे के पास रास्ते तक जहा से बाएँ घूमकर मोक्षधाम के सामने पुलिया तक यहाँ से बाएँ घूमकर मीरा सर्कल तक यहाँ से दाँये घूमकर सेक्टर 9 पटेल नगर मानसरोवर झील को शामिल करते हुए चित्रकुट सर्कल तक यहाँ से दाँये घूमकर नाले के सहारे-सहारे परिषद सीमा तक यहाँ से पुनः आटूण रोड परिषद सीमा तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती शामिल करते हुए।
8	08	बापु नगर स्थित देवनारायण सर्कल से प्रारम्भ कर एसटेक स्कूल, यासिका आई हॉस्पिटल को दाँये छोड़ते मानसरोवर वाली मुख्य सड़क तक, मुख्य सड़क से बाएँ घूमकर मानसरोवर तालाब को दाँये छोड़ते हुए मीरा सर्कल तक, मीरा सर्कल से बाएँ घूमकर नहर की पुलिया तक, नहर की पुलिया से बाएँ घूमकर नहर के सहारे-सहारे देवाखेड़ा दाँये छोड़ते हुए मुख्य सड़क तक, मुख्य सड़क से बाएँ घूमकर कोठारी स्कूल एवं मयुर स्कूल को शामिल करते हुए देवनारायण सर्कल तक
9	09	बापु नगर स्थित देवनारायण सर्कल से प्रारम्भ कर सेंट्रल ऐकेडमी स्कूल को बाएँ शामिल कर एवं मयुर स्कूल को दाँये छोड़ते हुए बाएँ हाथ पर स्थित हाईटेन्शन लाइट के नीचे स्थित पार्क से बाएँ घूमकर पार्क को शामिल करते हुए आई 97 को शामिल कर व बाएँ घूमकर आई 159 को शामिल कर दाँये घूमकर, आई 158 को शामिल कर, बाएँ घूमकर आई 136 को शामिल कर, व दाँये घूमकर रा. बा. उ. मा. वि. का शामिल कर, व बाएँ घूमकर सामुदायिक भवन को शामिल कर नहर के सहारे-सहारे प्रताप नगर थाने को शामिल कर पुर रोड की नहर की पुलिया तक, पुलिया से बाएँ घूमकर देवनारायण सर्कल तक की समस्त कुलिया बार्यी बस्ती को शामिल करते हुए।
10	10	मोखमपुरा वाली पुलिया से नहर के बाएँ रोड पर सहारे-सहारे 14 ए 22 को बाएँ शामिल करते हुए नहर को दाँये छोड़ते हुए सगज बावजी मन्दिर नहर की पुलिया तक, वहा पुनः बाएँ घूमकर 1 ए 23 बापु नगर को शामिल कर अगले चौराहे से दाँये घूमकर 14 ए 18 को शामिल कर शहरी प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र को दाँये छोड़कर गोतम धाम के कॉर्नर तक पहुंचेंकर मुख्यरोड को पार कर आई 517 को शामिल कर पार्क के कॉर्नर से बांयी घूमकर सीधे सीधे मयूर स्कूल की मुख्य सड़क पर पहुंच कर व बाएँ घूमकर कोठारी स्कूल को दाँये छोड़ मोखमपुरा की पुलिया तक की समस्त कुलिया बार्यी बस्ती को शामिल करते हुए।
11	11	पुर रोड पर स्थित पी-टी चौराहे से प्रारम्भ कर पुर रोड पर आकाशदीप मोर्टस को शामिल करते हुए, नहर की पुलिया तक, नहर की पुलिया से बाएँ घुम नहर के

		सहारे-सहारे आगे बढ़ते हुये एवं पुलिस थाना प्रताप नगर को बाँहें छोड़ते हुए, सामुदायिक भवन बापू नगर के कोने तक, सामुदायिक भवन से दाँये मुड़ व सामुदायिक भवन, आयुर्वेदिक चिकित्सालय को शामिल करते हुए, मकान नं. एच-52 बापू नगर तक, एच-52 बापू नगर से बाँहें मुड़ कर एच-110 बापू नगर तक, एच-110 से बाँहें मुड़ कर एच-96 बापू नगर तक, एच-96 से दाँये मुड़ आई-40 बापू नगर तक, आई-40 बापू नगर से बाँहें मुड़कर आई-99 बापू नगर तक, आई-99 बापू नगर से दाँये मुड़कर हेमु कलानी पार्क को शामिल करते हुए, पार्क के कोने से दाई ओर मुड़कर 3-त-15 तक, 3-त-15 से बाँहें मुड़कर नोवल स्कूल को दाँये छोड़ते हुए, 17-ए-17 तक, 17-ए-17 बाँहें मुड़कर पी-टी चौराहे तक
12	12	पांसल चौराहे पर एस 1 को शामिल करते हुए मुख्य पांसल रोड पर चल कर दाँये छोड़ते हुए श्री रिद्वी सिद्वी यान प्रा. लि. को छोड़कर इसके समिप के रोड पर बाँहें घुमते हुए पठान मंजिल को बाँहें शामिल करते हुए महात्मा गांधी रा. वि. को दाँये छोड़ते हुए विश्वकर्मा फर्नीचर को दाँये छोड़कर विश्वकर्मा फर्नीचर से बाँहें घुमकर रमेशचन्द्र बारी के मकान को दाँये छोड़कर यहां से दाँये घुमकर महेन्द्र किरी स्टोरी को बाँहें शामिल कर सौगाराम खारोल के मकान तक यहां से दाँये घुमकर विकी फैन्सी स्टोर को शामिल कर बरदीचन्द्र गुर्जर के मकान तक यहां से पुनः दाँये घुमकर रामा गणारिया तक यहां से हेन्ड पम्प तक कालू गणारिया के मकान बाँहें घुमकर हनुमान मन्दिर को दाँये छोड़कर माहेश्वरी लाईसेन्स तक यहां से बाई ओर घुमकर राजलक्ष्मी ज्वेलर्स राज ब्युटी सेलुन तक यहां बाँहें घुमकर सुखवाल मकान मोबाईल एवं टावर तक आर एस ई बी की बाउंड्री के सहारे तक पुर मेन रोड तक यहां पुनः बाँहें घुमकर विश्वकर्मा आटो सर्विसेज को शामिल करते हुए पुलिस चोकी प्रताप नगर बाबा रामदेव मन्दिर शामिल करते हुए पुनः पांसल चौराहे के एस 1 तक की समस्त कुलिया बांयी ओर तक।
13	13	पीएनटी चौराहे से पीएचईडी पानी की टंकी को शामिल करते हुए। सगस जी पुलिया तक। पुलिया से बांयी और शामिल कर नहर के सहारे-सहारे चल कर पीएचईडी अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय, मोखमपुरा को शामिल करते हुए मुख्य रोड पार करके नहर के सहारे-सहारे चल कर देवाखेड़ा क्यू सेक्टर आजाद नगर बांयी और शामिल करते हुए ट्रैफिक पार्क के कॉर्नर तक ट्रैफिक पार्क से बांयी और मुड़ कर ट्रैफिक पार्क को दांयी और छोड़कर आगे चल कर महाप्रज भवन को शामिलकर सामुदायिक भवन तक। यहां से मुड़ कर सड़क को पार कर भारतीय सिखवाल युवा संस्थान को बाँहें और शामिल करते हुए एवं गौतम आश्रम को दाँये और छोड़ते हुए। टी-पोइन्ट से बांयी और मुड़ कर हैप्पी डेज स्कूल को बांयी ओर शामिल करते हुए। शिव शंकर

		ट्रेडर्स से बाएँ घुम कर पुनः मुख्य रोड पर चल कर पन्नाधाय सर्किल से दाँये घुम कर श्री मार्बल एलआईसी आफिस एमएलवी छात्रावास को बाएँ शामिल करते हुए पांसल चौराहे से पुर रोड पर चल कर राजस्थान पत्रिका कार्यालय को शामिल करते हुए पीएनटी चौराहे की पानी की टंकी तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती से पुनः पीएनटी चौराहे तक।
14	14	पन्नाधाय सर्किल से प्रारम्भ कर कुम्भा सर्किल की तरफ चलते हुए चारभुजा टाईल्स के सामने स्टार हब मोबाइल तक यहाँ से बाएँ मुड़कर संकटमोचन हनुमान मन्दिर को दाँये छोड़कर सी 305 आजाद नगर तक यहाँ से बाएँ मुड़कर कायनेटीक मल्टी स्पेशिलिष्ट क्लीनीक के कॉर्नर तक फिर यहाँ से बाएँ मुड़कर अतुल आई हॉस्पिटल को शामिल करते हुए पन्नाधाय सर्किल तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती शामिल करते हुए।
15	15	कुम्भा सर्किल से पुर रोड की तरफ कुम्भा छात्रावास को शामिल करते हुए पूर्व मुख्य रोड पर केशव ई-मित्र तक व यहाँ से बाएँ मुड़कर ई एस आई हॉस्पिटल को शामिल करते हुए पांसल सर्किल तक यहाँ से बाएँ घूमकर एमएलवी टेकस्टाईल कॉलेज को व राफेल इन्टरनेशनल स्कूल को शामिल कर काईनेटीक मल्टी स्पेशिलिष्ट क्लीनीक से बाएँ मूँड़कर व क्लीनीक को दाँये छोड़कर व गोयल हॉस्पिटल को शामिल करते हुए रा. उ. मा. वि. प्रताप नगर के कोने तक। यहाँ से दाँये घूमकर संकटमोचन हनुमान मन्दिर को शामिल कर मुख्य सड़क के कॉर्नर पर स्थित बालाजी कास्मेटीक की दुकान तक यहाँ से बाएँ मुड़कर कुम्भा सर्किल पर स्थित कुम्भा छात्रावास की समस्त कुलिया बांयी बस्ती शामिल करते हुए।
16	16	पांसल चौराहे से प्रारम्भ कर स्टेशन की तरफ चलते हुये रानी मंदिर तक यहाँ से बाएँ घुमकर खेड़ों खुड़माता जी को शामिल कर अमर किरणा को दाँये छोड़ते हुये क्रोसिंग से बाएँ घुम कर दिनेश किरणा एंव श्री आदर्श बाल विद्या मंदिर को दाँये छोड़ते हुये पुराने आर टी ओ तक, यहाँ से दाँये घुमकर गुप्ता हॉस्पिटल को दाँये छोड़कर बी एस एल रोड तक यहाँ से बाएँ घुमकर सेलिब्रेशन पार्क को दाँये छोड़ते हुये दाँये हाथ स्थित रोड पर शमशान को शामिल करते हुये यहाँ से बाएँ घुमकर खेतों के रास्ते होते हुये 100 फिट रोड तक 100 फिट सड़क पार करते हुये पुनः खेतों के रास्ते होते हुये गोकुल विहार कोलोनी शामिल करते हुये गीनवेली स्कुल छोड़ते हुये पांसल मुख्य सड़क तक। यहाँ से बाएँ घुमकर करणी बाई मार्केट के कोने तक यहाँ से रोड के पास दाँये घूमते हुये पुनः पांसल चौराहे तक बाई कच्ची बस्ती।
17	17	स्टेशन रोड पर स्थित लेन्डमार्क होटल के सहारे-सहारे रेलवे अण्डर पास की पुलिया तक यहाँ से बाएँ मुड़कर पुलिस लाईन को दाँये छोड़कर श्री श्याम मेडिकल स्टोर तक

		यहाँ से दाँये मुड़कर ननदलाल माती को बाएँ शामिल करते हुए लक्ष्मी वाटिका को बाएँ शामिल करते हुए महावीर किरणा स्टोर को दाँये छोड़ते हुए गोविन्द मिनरल्स को बाएँ शामिल करते हुए सोनु फेब्रीकेटर्स के दाँये चलते हुए रिलाइन्स टावर को शामिल करते हुए पनघट तक यहाँ से बाएँ मुड़कर बालाजी डेयरी को शामिल करते हुए ऐरूलाल जी कुमावत, गणपति किरणा को शामिल करते हुए दाँये हाथ के पनघट तक यहाँ से मीरा नगर रोड पर होते हुए बी एस एल रोड पर सिक्योर मीटरिंग सर्विस को दाँये छोड़ते हुए गौरव टावर तक यहाँ से दाँये घुमकर गणेश मन्दिर रोड पर आगे बढ़ते हुए मीना पान के कोर्नर तक यहाँ से बाएँ मुड़कर कैलाश चन्द केडिया के मकान तक यहाँ से बाएँ मुड़कर पी डब्लु डी गोदाम को दाँये छोड़कर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के कोने तक यहाँ से दाँये मुड़कर लेन्डमार्क होटल तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती
18	18	पुर रोड पर स्थित शनि मन्दिर के सामने गादीया टेनिग कम्पनी से शुरू कर होटल अमर पैलेस एवं विशाल मेंगा मार्ट को शामिल करते हुए गंगापुर चौराहा तक यहाँ से बाएँ मुड़कर अम्बाजी टेक्सटाइल मार्कट को शामिल करते हुए सर्किट हाउस के कोने तक यहाँ से बाएँ मुड़कर रा. बा. ऊ. मा विधालय गांधी नगर के कोने तक यहाँ से बाएँ घुमकर विधालय को शामिल करते हुए पी डब्लु डी गोदाम के कोने तक यहाँ से दाँये मुड़कर मीना पान कॉर्नर तक यहाँ से दाँये मुड़कर गणेश मन्दिर रोड पर होते हुए बी एस एल रोड तक यहाँ से बाएँ मुड़कर कांचीपुरम के सामने पुराना आर टी ओ रोड पर होते हुए गुप्ता हॉस्पिटल को शामिल करते हुए देशी शराब के ठेके की दुकान तक यहाँ से बाएँ घुमकर श्री आदर्श यूपी बाल विधा मन्दिर को शामिल करते हुए क्रॉसिंग से दाँये मुड़कर खेड़ों कुट माताजी को दाँये छोड़कर पुर रोड पर स्थित शनि मन्दिर के सामने गादीया टेनिग कम्पनी तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती।
19	19	कुम्भा सर्कल से मुख्य रोड पर बाईं बस्ती पर लक्ष्मी किरणा स्टोर एवं फ्रैंड्स ऑप्टिकल्स से एफसीआई गोदाम से बाएँ घुमते हुए एवं एफसीआई गोदाम के दाँये छोड़ते हुए राधिका साड़ी को बाएँ शामिल करते हुए अग्रसेन मांगलिक भवन को बाएँ शामिल करते हुए श्री मंशापूर्ण महादेव को दाँये छोड़ते हुए मंगलम स्टोर को बाएँ शामिल करते हुए पुर की मुख्य सड़क तक यहाँ से बाएँ घुमते हुए श्री शंकर चाट सेन्टर को शामिल करते हुए पुर रोड से बांयी और घुमकर आर.के. पान पैलेस कुम्भा विद्यालय को शामिल करते हुए पुनः लक्ष्मी किरणा स्टोर तक समस्त बांयी कुलिया बस्ती से कुम्भा सर्कल से मुख्य रोड तक।
20	20	पुर रोड से भावना म्यूजिक को बाएँ शामिल करते हुए श्री मंशापूर्ण महादेव मंदिर के

		बाएँ शामिल करते हुए वहा से दाँये धूमकर अग्रसेन मंगलिक भवन को दाँये छोड़ते हुए राधिका स्टोर को दाँये छोड़ते हुए पुराने बस स्टैण्ड रोड पर पहुच कर बाएँ धूमकर एफसीआई गोदाम डांगी फैक्ट्री को शामिल करते हुए अजमेर चित्तोड रोड पहुचकर यहा से बाएँ धूमकर कर गंगापुर चौराहे तक गंगापुर चौराहे से क्लोथ मार्केट को शामिल करते हुए भावना म्युजिक तक की समस्त बांयी कुलिया बस्ती।
21	21	पुराना बस स्टैण्ड से कमल रेस्टोरेन्ट को शामिल करते हुए, जनरल स्प्रे पेन्टिंग, स्प्रिंगडेल स्कूल को बाई और शामिल करते हुये, कुम्भा सर्कल तक, कुम्भा सर्कल से बाई और धूमकर सनाढ़य समाज समिति के नोहरे तक, एवं मुख्य रोड को पार कर, कमला रजिडेन्सी, डॉ. ओ.एल अजमेरा के निवास को शामिल कर, बी.एस.एल गेस्ट हाऊस को शामिल करते हुए, महाप्रज्ञ सर्कल तक, सर्किल से बाई और धूम कर चिराग रोड लाईन्स, राज लक्ष्मी कारगो, राजकीय प्रा.विद्यालय को बाए और धूमकर, चोथमाता मन्दिर को दाँये छोड़ते हुये बाएँ धूमकर अजन्ता होटल के सामने विशाल ट्रास्पोर्ट कम्पनी चित्तोड रोड पर एच.पी पेट्रोल पम्प तक, यहा से पुनः चित्तोड रोड पर चल कर राजस्थान बनस्पति प्रोडक्ट, रामधाम, रिलाईन्स माल को शामिल करते हुए, कमल रेस्टोरेन्ट को शामिल कर, पुराने बस स्टैण्ड तक की समस्त कुलिया बाई बस्ती।
22	22	कुम्भा सर्कल आजाद नगर के पास प्रिंस बेकर्स से प्रारम्भ कर शिव शंकर टेडर्स से बाएँ मुड़कर खेड़ाखुट माताजी को छोड़ते हुए टी पोइन्ट तक, टी पोइन्ट से दाँये धूमकर गौतम आश्रम को शामिल करते हुए सिखवाल समाज संस्थान को दाँये छोड़ते हुए युआईटी ट्रेफिक पार्क के कोने तक, ट्रेफिक पार्क के कोने से बाएँ मुड़कर ट्रेफिक पार्क के को शामिल करते हुए आजाद नगर मोक्षधाम को शामिल करते हुए मुख्य सड़क को पार कर नहर के सहारे-सहारे आगे बढ़ते हुए हाईटेन्सन लाईट के नीचे पार्क को दाँये छोड़ते हुए जे-सेक्टर को शामिल करते हुए मुख्य सड़क तक, मुख्य सड़क से बाएँ धूमकर महाप्रज्ञ सर्कल तक, महाप्रज्ञ सर्कल से दाँये धूमकर रामधाम रोड पर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के कोने तक, स्कूल के कोने से बाएँ मुड़ कर कुम्भा सर्कल प्रिंस बेकर्स तक की समस्त बांयी कुलिया बस्ती कुम्भा सर्कल तक
23	23	चित्तोड रोड पर परिषद सीमा से प्रारम्भ होकर कमला एन्कलेव मास्ती शोरूम ग्राम भारती को शामिल कर माईन मील तक यहा बाएँ धूमकर अजन्ता होटल तक यहा से बाएँ धूमकर चोथ माता मन्दिर को शामिल करते हुए प्रा. वि. के पीछे कॉर्नर तक यहा से बाएँ धूमकर मुख्य सड़क पार कर के. 169 आजाद नगर को शामिल कर आगे पार्क के कोने बाएँ धूमकर व के. 93 को दाँये छोड़ते हुए के. 104 के कोने तक यहा से दाँये धूमकर के. 109 को दाँये छोड़ते हुए यहा से बाएँ धूमकर सिटी कॉन्वेंट

		स्कूल को बाएँ शामिल करते हुए नहर की पुलिया पर यहां से बाएँ घूमकर चंद्रशेखर आजाद नगर के मकान नं 06 ए 72 को शामिल करते हुए एस. बी. आई बैंक को शामिल कर यहां से दाँये घूमकर 1 ए 1को शामिल कर जैन मन्दिर एवं 5 ए 15 को दाँये छोड़ते हुए यहां से बाएँ घूमकर 4 जी 58 बाएँ शामिल करते हुए अग्रवाल समाज के नोहरे को शामिल करते हुए नहर पार कर नहर के सहारे-सहारे चल कर डेयरी के पास आटूण रोड वाले बालाजी को दाँये छोड़ते हुए रिंग रोड क्रॉस कर शान्ति टावर को शामिल करते हुए श्री कृष्णा डेयरी पार्लर को दाँये छोड़कर बाएँ घूमकर आशिक वार्ड के कॉर्नर तक यहां से दाँये घूमकर पूजा सुटिंग को शामिल करते हुए आटूण रोड पर परिषद सीमा तक यहां से बाएँ घूमकर चितौड़रोड पर स्थित परिषद सीमा तक की कुलिया बांयी बस्ती शामिल है।
24	24	सगस जी के स्थान से चितौड़ रोड की तरफ दक्षिण दिशा में होते हुए सीध योगी भवरनाथ जी का धुना को लेते हुए चितौड़ रोड की तरफ मारुति ट्यूर होते हुए ओवर ब्रिज के किनारे से विटी वर्ड विधालय के सामने होते हुए एस बी एम टायलेट को शामिल करते हुए एफ सी आई गोदाम को शामिल करते हुए तेंजाजी के मन्दिर के कोने से पूनः चितौड़ रोड तक।
25	25	ओवर ब्रिज से पूर्व की तरफ स्मृति वन हरणी महादेव चौहराये से उत्तर की ओर दादीधाम मन्दिर के सामने होते हुए एस डी ए स्कूल के सामने होते हुए नन्द भवन को शामिल करते हुए जगदम्बा इलेक्ट्रिकल को शामिल करते हुए शीतलामाता मन्दिर के सामने होते हुए जय जोगणीया माँ के सामने वाले कोने से होते एफ सी आई गोदम के सामने होते हुए एस बी एम टॉयलेट के सामने होते हुए रंजना कलेक्शन को शामिल करते हुए श्री देव हाउस के सामने होते हुए ओवर ब्रिज तक।
26	26	मोक्षधाम के कोने से प्रारम्भ होकर एस डी ए स्कूल को बाएँ शामिल करते हुए, दादीधाम को शामिल करते हुए रिंग रोड सर्कल तक। सर्कल से दाँये मुड़कर ओम वाटिका को बाएँ शामिल करते हुए कलाई ओवर को दाँये छोड़ते हुए सहारे-सहारे चलते हुए समेलिया फाटक को दाँये छोड़ते हुए परिषद सीमा होते हुए नहर के सहारे-सहारे गोकुल विहार को दाँये छोड़ते हुए राधेनगर को बाएँ सम्मिलित करते हुए यहां से नहर को क्रोस कर नहर के सहारे-सहारे संचिदास माता मंदिर तक। यहां से दाँये घुमकर तेजसिंह सर्कल तक। यहां से बाएँ घुमकर एल. 2 सी., एन. पी. ए. को शामिल करते पंचवटी चौराहा तक। यहां से दाँये घुमकर सोनी हॉस्पिटल को छोड़ते हुए मोक्षधाम के कोने तक।
27	27	रामधाम के पास अण्डर ब्रिज के पास सामुदायिक भवन से शुरू कर दक्षिण की तरफ फरवरी स्टील, राजस्थान कमर्शियल को शामिल करते हुए गणेश जी बैरवा के मकान

		के सामने से बाएँ मुड़कर तेजाजी के मन्दिर को दौँये छोड़कर दुर्गा माता मन्दिर को शामिल करते हुए दाईं तरफ मुड़कर SBM टोयलेट को शामिल करते हुए FCI गोदाम को दौँये छोड़ते हुए बाएँ मुड़कर नाला क्रॉस कर कावाखेड़ों। सड़क तक। यहां से दौँये मुड़कर कावाखेड़ों। स्कूल को दौँये छोड़ते हुए मस्जिद को शामिल करते हुए सड़क-सड़क मीनाक्षी प्रजापति के मकान तक। यहां से बाएँ मुड़कर लक्ष्मी नारायण मंदिर को शामिल करते हुए उचित मूल की दुकान तक। यहां से दौँये मुड़कर सड़क-सड़क कावाखेड़ों। रोड पर गायत्री किरणा स्टोर को शामिल करते हुए आयकर विभाग को दौँये छोड़ते हुए सड़क-सड़क चलकर आगे संकट मोचन हनुमान मन्दिर, क्रॉस कर श्याम मन्दिर को शामिल करते हुए सड़क-सड़क पुनः रामधाम के पास अण्डर ब्रिज तक।
28	28	सूर्य महल के सामने कैलाश टावर नन्दनी मेडिकल से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क चलते हुए शास्त्री नगर चौराहा पर भीलवाड़ा अरबन कोपरेटिव बैंक तक यहां से रोड क्रॉस कर पश्चिम से इण्डियन बैंक को शामिल करते हुए आनंदा बैंक को शामिल करते हुए वन विभाग के कोने तक। यहां से दक्षिण में अरिहन्त हॉस्पिटल कम्यूनिटी हाल होते हुए यहां से पूर्व की ओर इनकम टेक्स ऑफिस को शामिल करते हुए पूर्व दिशा में ही कावा खेड़ों। चौराहा होते हुए गायत्री किरणा स्टोर के सामने होते हुए शिवजी मन्दिर को शामिल करते हुए सिद्धेश्वर बालाजी मन्दिर तक यहां से उत्तर दिशा में न्यू हाउसिंग बोर्ड पश्चिम होते हुए ब्राह्मणी स्वीट के सामने होते हुए कँवर कौर न्यू दुकान तक यहां से उत्तर के ही बाबा रामदेव मन्दिर, माहेश्वरी भवन को शामिल करते हुए काफी हाउस कैलाश टावर तक सूर्य महल के सामने।
29	29	रेलवे स्टेशन गजाधर मानसिंहका धर्मशाला के मुख्य गेट के सामने जोधपुर मिष्ठान से दक्षिण में मुरली विलास धर्मशाला को शामिल करते हुए रोड क्रॉस कर अण्डर ब्रिज के पास होकर दक्षिण दिशा में ही काशीपुरी को जाने वाली सड़क-सड़क होते हुए मानसिंहका भवन को बाएँ शामिल करते हुए अण्डर ब्रिज के पास काशीपुरी सड़क के अन्तिम मकान तक यहां से पूर्व दिशा की ओर प्राथमिक विघालय को सम्मिलित करते हुए जैन धर्मशाला के सामने नाले के पास दुर्गा मन्दिर को शामिल करते हुए एम. एल. बी. कॉलेज के पूर्वी दक्षिण कोने तक। यहां से सड़क क्रॉस कर पूर्व की तरफ नगर परिषद चित्रकुट धाम को शामिल करते हुए गल्स कॉलेज के सामने जगजीत महादेव मन्दिर तक यहां उत्तर दिशा की तरफ परिषद क्वाटर को शामिल करते हुए कोतवाली थाने के सामने कोने तक। यहां से पश्चिम दिशा में परिषद के गेट की तरफ चाणक्य सर्कल तक। यहां से उत्तर दिशा की ओर संकटमोचन हनुमान मन्दिर को शामिल करते हुए गोल प्याउ चौहराये तक। यहां से पश्चिम दिशा की

		ओर सड़क-सड़क चलकर पुनः गजाधर मानसिंहका धर्मशाला के सामने जोधपुर मिष्ठान तक।
30	30	रेल्वे स्टेशन चौराहे पर लाईट की कैची से शुरू होकर अयोध्या एन्टप्राइजेज, काबरा की दुकान होते हुए, गोल प्याऊ चौराहे तक, यहां से दक्षिण दिशा में हेड पोस्ट ऑफिस तक, यहां से टू इन्जिनियर्स हाऊस कैफे होते हुए, कोतवाली पुलिस थाना के सामने होते हुए, हरिओम जूस होते हुए, भीलवाड़ा अरबन कापरेटिव बैंक के सामने होते हुए, द्वारकाधीश इन्वेस्टमेन्ट के सामने होते हुए दिलवहार कुल्फी होते हुए वन्दना बेकर्स होते हुए अम्बे किरणा स्टोर होते हुए, फ्रेंड्स मोबाइल के सामने होते हुए सेवा सदन रोड, मामा-भांजा टी स्टाल होते हुए, देवनारायण टी-स्टाल होते हुए, शिव मन्दिर के सामने होते हुए, जोशी भोजनालय हरि शेवा धर्मशाला के पास, भाटी एन्टप्राइजेज होते हुए, शंकर ब्रेकर के पास, महादेव मन्दिर के पास, श्रीराम डिपार्टमेंटल स्टोर होते हुए, भैरूनाथ शीट वर्कस के पास वाला कौना से एवन सैल्स, जय-जय कनेक्सन के सामने, आर.आर.सैल्स के सामने, विवेक कलेक्सन तक, यहां से सरस डेयरी, अनिल ऐजेन्सी होते हुए, रिलेक्स फुटवेयर के पास कौने पर होते हुए विवेक फुटवेयर से होटल नन्द पेलेस होते हुए झुलेलाल चौराहे से होते हुए, रेल्वे स्टेशन चौराहे पर लाईट की कैची से शुरू होकर अयोध्या एन्टप्राइजेज तक।
31	31	अजमेर चौराहे से दक्षिण दिशा की ओर खड़ेश्वर जी महाराज, गंगापुर चौराहा होते हुए रेलवे फाटक पर स्थित भारत पेट्रोल पम्प तक यहां से उत्तर दिशा की ओर बैंक आफ बडौदा का ए. टी. एम., जोधपुर मिष्ठान भण्डार, हिन्दुस्तान स्पोर्ट्स, को शामिल करते हुए रेलवे स्टेशन चौराहा पर कौने पर श्री राम भोजनालय तक। यहां से सड़क क्रोस कर उत्तर दिशा में ही चाचा फूल वाला को शामिल करते हुए झुलेलाल चौराहा तक। यहां से पूर्व दिशा में गोकुल प्लाजा, होटल हवेली, अप्सरा कॉम्प्लेक्स को शामिल करते हुए डी डी वन साड़ी के सामने कॉर्नर पर डीलक्स मेचिंग सेन्टर तक। यहां से उत्तर दिशा की ओर प्रताप टाकिज के सामने होते हुए सरस डेयरी के सामने राजस्थान गलास हाउस दुकान को शामिल करते हुए कॉर्नर पर विवेक कलेक्शन तक। यहां से पश्चिम दिशा में कैलाश नमकीन दुकान को शामिल करते हुए पश्चिम में स्टूडेन्ट पान हाउस तक। यहां से रोड क्रोस कर आर आर सैल्स से उत्तर दिशा में हनी साइबर कैफे को शामिल करते हुए अजमेरा फर्नीचर के सामने होते हुए कॉर्नर पर ए वन सैल्स के सामने गणेश मन्दिर तक। यहां से पश्चिम दिशा में खुशबु ऐजेन्सी को शामिल करते हुए विजयवर्गीय नमकीन की दुकान के सामने होते हुए उत्तर दिशा की तरफ कॉर्नर पर दिलबहार नमकीन तक। यहां से पश्चिम दिशा में कलेक्ट्रेट की तरफ महर्षि गौतम मोबाइल शोप को शामिल करते हुए एस.

		पी. साहब के बंगले के कोने तक। यहाँ से उत्तर दिशा कलेक्ट्रेट, जिला काराग्रह को शामिल करते हुए कोर्नर पर सिचांई विभाग आफिस तक। यहाँ से पश्चिम की तरफ कृषि विभाग को शामिल करते हुए अजमेर चौराहा तक।
32	32	परशुराम सर्किल से प्रारम्भ कर आर एस ई बी आफिस, मुखर्जी गार्डन को शामिल करते हुए एवं कलेक्टर आफिस को दाँये छोड़ते हुए मुखर्जी गार्डन के कोने से बाएँ मुड़कर एस. पी. साहब के बगले को छोड़ते हुए चन्द्र पान एण्ड कोल्ड ड्रिंक को बाएँ शामिल करते हुए यहाँ से दाँये मुड़कर चौथरी काफी हाउस तक यहाँ से बाएँ मुड़कर विजयवर्गीय नमकीन को शामिल कर एवं रोड क्रोस कर कमल एन्टर प्राईजेज को दाँये छोड़ते हुए गणेश मन्दिर के कोने तक यहाँ से दाँये मुड़कर ए-वन सेल्स को शामिल करते हुए आर. आर. सेल्स को दाँये छोड़ते हुए तोतला भवन के कोने तक यहाँ से बाएँ मुड़कर कैलाश नमकीन को दाँये छोड़ते हुए सावन साईबर कैफे के कोने तक। यहाँ बाएँ घुमकर गुर्जर एग्रो हनुमान मन्दिर को शामिल करते हुए जैन सोरभ अशोक एण्ड एसोसियेट के कोने तक। यहाँ से दाँये मुड़कर एवं पुनः बाएँ मुड़कर हेलन केयर हरिभाई कचौरी को शामिल करते हुए हरिसेवा धाम को छोड़ते हुए रोडवेज बस स्टैण्ड चौराये तक। यहाँ से बाएँ हाथ मुड़कर सड़क-सड़क होते हुए पुनः परशुराम सर्किल पर।
33	33	नेहरू रोड पर परशुराम चौराहे से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा में सत्यम कॉम्प्लेक्स की ओर चलकर कृषि उपज मण्डी के दांयी ओर मुड़कर दारू गोदाम को शामिल कर कृषि मण्डी की बाउण्डरी के सहारे-सहारे चलते हुए तिराहा तक, यहाँ से पी ई प्राविजन स्टोर की गली में मांगीलाल जी जोशी के मकान तक, यहाँ से बांयी ओर मुड़कर तिकोना पार्क तक, यहाँ से गायत्री आश्रम मेन रोड तक यहाँ से उत्तर दिशा की ओर नगर विकास न्यास के कोने तक, यहाँ से अजमेर मेन रोड क्रोज करके पश्चिम दिशा में रेलवे पटरी तक यहाँ से दक्षिण दिशा में पटरी के सहारे-सहारे चलते हुये अजमेर चौराहा तक, यहाँ से परशुराम चौराहा तक की कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित है।
34	34	गणेश मन्दिर बस स्टैण्ड से उत्तर दिशा में लव गार्डन (नेहरू गार्डन) के कौन तक, नेहरू गार्डन के सहारे चलते हुए, राजीव गांधी उद्यान के कौन तक, गार्डन के कौने हफीज मौ0 के मकान को सामिल करते हुये, दक्षिण दिशा में पुराने मजदूर चौराहा(राजीव गांधी चौराहा) से पश्चिम दिशा में आर. के. कॉलोनी सामुदायिक भवन एवं तिकोना पार्क 60 फीट रोड को शामिल कर तिकोना पार्क से मांगीलाल जी जोशी के मकान की गली में दाईं ओर मुड़कर पी. के. प्राविजन स्टोर तक यहाँ से कृषि मण्डी के बाउण्डरी के सहारे-सहारे चलते हुए दांयी हाथ में दारू गोदाम को छोड़ते

		हुए बांयी ओर मुडकर परशुराम चौराहा तक यहाँ से पूर्व में गणेश मन्दिर तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित है।
35	35	श्री गेस्ट हाउस दक्षिणी पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा में चलकर डॉ. एल. पी. गुप्ता के मकान को शामिल करे बांयी ओर मुडकर वर्धमान स्कूल को शामिल करके उत्तर दिशा में आगे कि ओर प्रभुलाल टांक के मकान को शामिल करते हुये उत्तर दिशा में आगे कि ओर बढ़ते हुये सरस डेयरी बूथ, प्राज्ञ भवन तक यहाँ से दाईं ओर मुडकर प्रज्ञा भवन आगे चलकर दीपक प्रोविजन स्टोर तक यहाँ से महात्मा ज्योतिबा स्कूल तक दांयी ओर घुमकर खेड़ों कुट माताजी रोड पर मातृ शिशु मन्दिर स्कूल से बांयी ओर घुमकर विजय मिष्ठान भण्डार को शामिल करते हुये बांयी ओर मुडकर मातेश्वरी फलोर मिल्स एवं मसाल उघोग की गली तक यहाँ से दाँये घुमकर आगे की ओर चलकर बाबुलाल जाजू की वाटिका को शामिल करते हुये कोने पर किशन मुरारी शर्मा के मकान शामिल करते हुये बांयी ओर मुडकर उदयलाल अहीर के मकान तक यहाँ से पूर्व की ओर मनीषा फलोर मिल्स को शामिल करते हुए दांयी हाथ पर टेगोर स्कूल को छोड़ते हुये आगे पूर्व दिशा में चलते हुए सीराया मुस्ताद के मकान से बाँह मुडकर नारायण सोनी के मकान तक यहाँ से दाँये घुमकर राधेकृष्णा जनरल स्टोर तक यहाँ से बाँह घुमकर शिव मन्दिर यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलकर रतनलाल काबरा प्रेमचन्द शीतलदास सोनी को शामिल करते हुए पन्नालाल माली तक, यहाँ से दाँये घुमकर आगे चलकर बाँह घुमकर देवरिया बालाजी की बाउंड्री के सहारे-सहारे कृष्ण हॉस्पिटल शामिल करते हुये नेहरू गार्डन के कोने तक यहाँ से उत्तर दिशा में चलकर रोडवेज बस स्टैण्ड को शामिल करते हुये बांयी ओर घुमकर श्री गेस्ट हाउस दक्षिणी पूर्वी कोने तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित है।
36	36	नेहरू रोड पर स्थित लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर के बांयी ओर गली में बी 304 तक जाते हुए खेड़ों खूट माताजी मेन रोड पर महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल के बांयी ओर मुडकर दीपक प्रोविजनल स्टोर तक, दीपक प्रोविजनल स्टोर के सामने गली में जाते हुए सरस डेयरी बूथ, प्राज्ञ भवन तक, सरस डेयरी बूथ के बांयी ओर से चलते हुए दाँये हाथ डॉ. एल. पी. गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए श्री गेस्ट हाउस चौहराये तक, श्री गेस्ट हाउस चौहराये से नेहरू रोड पर स्थित लक्ष्मी प्रोविजनल स्टोर तक।
37	37	रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने गणेश प्लाजा नवकार प्लाजा में दक्षिण दिशा सुखवाल स्वीट्स को हरिसेवा धाम कोने तक। यहाँ से पूर्व दिशा में बाहेती बगीची/पेलेस के कोने तक महालक्ष्मी फैशन व संजय ऑप्टिकल्स की दुकान तक। सड़क क्रोस कर एडवान्स डैंटल हॉस्पिटल में शामिल कर यहाँ से पूर्व दिशा में ही क्रय विक्रय सहकारी

		<p>समिति को शामिल करते हुए कोने पर यहां से उत्तर दिशा में एम जी एच को शामिल करते हुए सेवा सदन स्कूल के सामने होते हुए सूचना क्रेन्ड की तरफ फेन्डस मेडिकल तक यहां से पूर्व दिशा में अजमेरा मेडिकल भोपाल क्लब को शामिल करते हुए महाराजा टाकीज तक यहां से उत्तर दिशा में सीताराम जी धर्मशालाए भारत रेस्टोरेन्ट टी बी हॉस्पिटल को शामिल करते हुए पानी की टंकी के पास शिव मन्दिर तक कोने पर शिव मन्दिर से पुनः दक्षिण की तरफ तुलसी होटल अम्बिका साड़ीज को शामिल शिवम प्लाजा के सामने होते हुए सोमानी स्कीन एण्ड आक्सेट आंचलिया जी के मकान के शामिल कर नाहरसिंह माता मन्दिर व एस बी एम टायलेट को छोड़ते हुए राठी भवन को शामिल करते हुए शिवम होजरी गोरव होजरी श्री राधे सातण्ड होते हुए ब्रज कोर की माताजी के सामने होते हुए श्री शंकर कम्पाउंडर नेहरू रोड पर कोने पर शगुन ज्वेलर्स तक यहां में राम स्नेही हॉस्पिटल होटल पिंक पेलैस आर्य विघा निकेतन अग्रवाल उत्पन्न होते हुए पुनः रोडवेज बस स्टैण्ड तक</p>
38	38	<p>विमल सागर स्कूल में पश्चिम की तरफ श्री शिव लाल जी सेनी के मकान को शामिल कर यहां से प्रारम्भ करते हुए दक्षिण की तरफ नाहरसिंह माता मन्दिर, शामिल करते हुए टी. बी. हॉस्पिटल के सामने दीपक मेडिकल के कोने पर शीतलामाता चबुतरे के कोने तक। यहां से बाँह मुड़कर अनुपम होटल रिलेक्स को शामिल कर नमन मेडिकल को शामिल करते हुए श्री भीमगंज की चौकी के कोने तक। यहां से रोड क्रोस कर फतह टावर को शामिल करते हुए सिन्धुनगर के तिराहे तक यहां से बाँह मुड़कर बैरवा बदर्स तक। यहां से बाँह और मुड़कर जमात खाना होते हुए जामा मस्जिद को शामिल करते हुए गुलमण्डी सड़क पर नन्दू लाल नमकीन कोने तक। यहां से टिक्की वाल की दूकान को शामिल करते हुए पूर्व दिशा से सराफा ऐसोशियेशन धर्मकाटा के कोने तक। यहां से बाँह मुड़कर सड़क-सड़क भीत के बालाजी के सामने होते हुए विमल सागर स्कूल को शामिल करते हुए।</p>
39	39	<p>पुलिस कोतवाली के सामने रा.उ.मा.वि. सिन्धुनगर के कोने से प्रारम्भ कर परिषद क्वाटर को दौँये छोड़ते हुए साई स्टेशनरी की दुकान तक यहां से दौँये घुमकर बड़ला चौराहा पर पंचमुखी स्वीट्स तक यहां से बाँह मुड़कर गांधी सागर तालाब को दौँये छोड़ते हुए आसजी के बाग के सामने होते हुए पानी की टंकी तक यहां से लकड़ी की टाल को शामिल करते हुए मातेश्वरी टेलर के कोने से बैरवा बदर्स के सामने राधा कृष्ण मन्दिर को शामिल करते हुए बाँह मुड़कर बैरवा बदर्स को दौँये छोड़ते हुए सड़क-सड़क कोतवाली के सामने सिन्धू नगर स्कूल तक।</p>
40	40	चित्रकुट धाम के सामने मे डी. ई. ओ. आफिस भावना म्यूजिक कालिका मंदिर को

		शामिल करते हुये श्री रामपाल सोनी के मकान तक, यहां से बाएँ मुड़कर श्रीमति मधू जाजू के मकान व श्री अगतर अली शेख के मकान को शामिल करते हुए चौराहे पर इण्डियन बैंक के सामने तक यहां से पूर्व दिशा में सड़क क्रॉस कर पूर्व दिशा में चलते हुए सूर्य महल के सामने कोने पर बोम्बे आईक्रीम दुकान तक, यहां से बाएँ मुड़कर सड़क-सड़क मार्डन पब्लिक माध्यमिक स्कूल के सामने होते हुए तिराहे तक, यहां से सड़क क्रॉस कर द्वोणचार्य कोचिंग को दाँये हाथ छोड़ते हुये गली में एस. बी. आई. एटीएम के सामने हरणी महादेव रोड पर, यहां से बाएँ मुड़कर सड़क-सड़क चलते हुये गल्स स्कूल को शामिल करते डी.ई.ओ. आफीस तक।
41	41	सूर्य महल से दक्षिण में भारतीय स्टेट बैंक नीलकण्ठ महादेव को शामिल करते हुये ब्राह्मणी स्वीट्स के कोने पर कोने से पूर्व की ओर सगस जी मंदिर को शामिल करते हुये टेम्पो स्टैण्ड से बीसीपी ए.टी एच आई. के मकान के सामने होते हुये स्वर साधना मंदिर को शामिल करते हुये राधेश्याम कमला गर्ग के मकान से पूर्व की ओर अनमोल फेनीकेटर्स के सामने कोने से उत्तर की ओर रमाणी कलेक्शन को शामिल करते हुए पानी की टंकी के सामने से पश्चिम की ओर मसूरी क्लीनिक को शामिल करते हुए हॉटल इण्डिया एवं केरम के सामने होते हुए पेसिडेन्ट पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुए सुर्य महल के कोने तक।
42	42	ब्राह्मणी स्वीट्स के सामने धनवतरी आयुवेदिक दुकान से बाएँ होते हुए ब्राण्ड कार्य को शामिल करते हुए सिद्वेश्वर बालाजी मन्दिर के कोने तक। यहां से बाएँ मुड़कर पंचमुखी डिकिंग वाटर ग्लोबल विजडम स्कूल को शामिल करते हुए सुप्रिया उघान को शामिल करते हुए सड़क-सड़क होते हुए सोनी हॉस्पिटल को शामिल करते हुए पंचवटी चौराहे की तरफ मेवाड हाडस वाले रोड पर मुड़कर पाते खां के मकान के सामने होते हुए श्री लेखराज चन्द्र माली के मकान के सामने होते हुए लन्दन स्वीट्स को शामिल करते हुए गरीब नवाज मदरसा को दाँये हाथ रखते हुए रामदेव मन्दिर को शामिल करते हुए नाथुलाल पुत्र दुर्गालाल भील के मकान को शामिल करते हुए भोपालपुरा चौराहे पर। यहां से बाएँ मुड़कर सगस जी के मन्दिर के सामने से होते हुए सड़क-सड़क धनवतरी आयुवेदिक दुकान तक।
43	43	भोपालपुरा चौराहे से बाएँ हाथ चलते हुए पुजा टेन्ट हाउस एण्ड फलोवर, बैरवा फलोवर, डेकोरेशन को शामिल करते हुए रामदेव मंदिर के सामने होते हुए अजय विक्रम सिंह राठोड के मकान गरीब नवाज मदरसा को शामिल करते हुए सड़क-सड़क श्री अभिमन्यु, श्री लेखराम चन्दनानी के मकान तक यहां से दाँये मुड़कर पाने खा के मकान को शामिल करते हुए सड़क-सड़क मेवाड हाडस तक, यहां बाएँ मुड़कर पंचवटी चौराहा तक। यहां बाएँ मुड़कर सड़क-सड़क एल 2 सी एन पी ए के सामने होते हुए

		<p>सावरिया रिसोर्ट को शामिल करते हुए तेजसिंह सर्कल तक। यहाँ से बाएँ मुडकर शिव शक्ति किरणा स्टोर को शामिल करते हुए कंचन धाम डेयरी बूथ को शामिल करते हुए सुन्दरम रिसोर्ट को दाँये छोडते हुए श्रृंगी ऋषी मंदिरमें माधवदास जी की बगीची तक। यहाँ से बाएँ हाथ चलते हुए रत्नगिरी हॉस्पिटल तक। यहाँ से बायं हाथ पतली गली में चलते हुए बावडी, काबरा जी के मकान व जैन मंदिर को शामिल करते हुए श्री नन्दलाल बलाई के मकान के सामने होते हुए शर्मा जी के मकान तक। यहाँ से दाँये मुडकर सागर वाटिका के सामने होते हुए लकड़ी पैलेस तक। यहाँ से सड़क क्रॉस कर अनमोल फैब्रीकेटर्स तक। यहाँ से बाएँ मुडकर प्रेमचन्द जैन के मकान को शामिल करते हुए श्री राधेश्याम कमला गर्ग के मकान तक। यहाँ से बायं ओर मुडकर मन्दिर को छोडते हुए सड़क-सड़क सीधे चलते हुए न्यू हाडसिंग बोर्ड भोपालपुरा सड़क पर बी. पी. पाटनी के मकान तक यहाँ से आये मुडकर भोपालपुरा तिराहे तक। वहाँ से पुजा टेन्ट हाउस तक।</p>
44	44	<p>हरणी महादेव रोड पर एस बी आई के ए टी एम से बाएँ हाथ की तरफ देवनारायण आटो कन्सन्ट को शामिल करते हुए द्रोणाचार्य कोचिंग, अजय कोफी हाउस, कृष्णा डेयरी को शामिल करते हुए सूर्य महल के कोने तक। यहाँ से बाएँ मुडकर होटल इण्डिया व केरम को शामिल करते हुए मंसुरी बिल्डिंग को दाँये हाथ रखते हुए ओवर हेड पानी की टंकी तक। यहाँ से दाँये मुडकर नवरंग सीमेन्ट एण्ड स्टेशनरी अमन दवाखाना को शामिल करते हुए लकड़ी पैलेस तक। यहाँ से बाएँ मुडकर सागर वाटिका को शामिल करते हुए शर्मा जी मकान के सामने होते हुए श्री नन्दुलाल बलाई के मकान को शामिल करते हुए श्याम विहार में बावडी के सामने होते हुए काबरा जी के मकान के सामने होते हुए अशोक कुमार गर्ग नीमच वाले के मकान को शामिल करते हुए हरणी महादेव रोड रत्नावली हॉस्पिटल तक। यहाँ से बाएँ घुमकर स्विफ्ट कॉलेज को शामिल करते हुए एस बी आई के ए टी एम तक।</p>
45	45	<p>बड़ला चौराहा ए.टी.एम से शुरू होकर स्वीफ्ट कॉलेज से होते हुये सरस डेयरी बूथ को सामिल करते हुये, गांधी सागर पार्क को सामिल करते हुये, शिवालय के सामने वाले चौराहे से होते हुये फास्ट फूड की दूकान को सामिल करते हुये पिपलेश्वर महादेव पथवारी होते हुये, रपट के बालाजी होते हुये, पाल वाले पीर बाबा को सामिल करते हुये, तेजाजी मन्दिर को सामिल करते हुए, देवनारायण मन्दिर के पास वाले कोने को सामिल करते हुए, जय जय मा काली मन्दिर को सामिल करते हुए, सफी आईसक्रिम एण्ड पार्लर से होते हुए, कादीर चिकन शाप के सामने होते हुए, भगवान बद्री विशाल मन्दिर के सामने होते हुए, आर.आर टावर होते हुए, मालिवाल स्वीट को सामील करते हुए, मामा की दूकान, शंकर फिणी की दूकान को छोडते हुए व महावीर</p>

		आइसक्रीम के सामने वाला कोना होते हुए, अकरम ग्रामेन्ट के पास कोने से होते हुए, कालिका माता मन्दिर व श्री कृष्ण मन्दिर के पास वाला कोना, साहिल टेक्सटाईल के कोने से होते हुए, मदन जी चाय वाला होते हुए, माहेश्वरी प्रोविजनल स्टोर के पास वाले कोने से होते हुए, जय हनुमान दरबार बैण्ड के पास होते हुए, श्रीजी एंटरप्राइजेज के सामने होते हुए, पुनः एटीएम तक
46	46	पंचमुखी मोक्षधाम के सामने परिषद लाईब्रेरी भवन से प्रारम्भ होकर बाईं तरफ खटीको के मंदिर को शामिल करते हुए बाग ए मदीना को दाँये छोड़ते हुए मोमीन मस्जिद को शामिल करते हुए पुरानी धानमण्डी चोक तक। यहां से बाईं तरफ मुड़कर काबरा गली, को शामिल करते हुए बड़ के पीछे सोमाणी टेन्ट की दुकान तक। यहां से दाईं तरफ मुड़कर नीलगरो की मस्जिद को शामिल करते हुए जुनावास स्कूल को शामिल करते हुए सात भाईयों की गली में होते हुए बैरवा बर्दस के सामने होते हुए लकड़ी की टाल को छोड़ते हुए पानी की टंकी के सामने होते हुए पटवारी सीमेन्ट की दुकान तक। यहां से दाँये तरफ मुड़कर आस जी के बाग को शामिल करते हुए गाँधी सागर तालाब के सहरे रोड रोड होते हुए बोहरा कब्रिस्तान तक यहां से से शाहरुख आसीमाना होते हुए सड़क-सड़क बाईं तरफ मदरसा सूफियान को शामिल करते हुए पंचमुखी दरबार के सामने होते हुए मोक्षधाम के सामने परिषद लाईब्रेरी तक।
47	47	नेहरू रोड पाठक कॉम्प्लेक्स से दक्षिण की ओर चल कर ब्रज कोट माता जी मन्दिर को शामिल करते हुए आभा साड़ी को शामिल करते हुए शिवम होजरी को दाँये छोड़ते हुए शिवलाल सोनी के मकान के सामने लक्ष्मी ज्वैलर्स को शामिल करते हुए दिग्म्बर जैन मन्दिर को शामिल करते हैं। हनुमान मन्दिर अजर दान दिग्म्बर जैन मन्दिर को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ गली में होते हुए भीत के बालाजी तक। यहां से सड़क क्रोस कर दक्षिण में ही दिग्म्बर जैन के सामने होते हुए सर्फारा बाजार मेन रोड तक। यहां से बाँहें मुड़कर बड़े मन्दिर को दाँये हाथ छोड़ते हुए राज बैगल्स को शामिल करते हुए राम जी मोड़ौं की गली को शामिल करते हुए बाजार में सड़क-सड़क होते हुए आदी नाथ जैन मन्दिर को दाँये छोड़ते हुए शहीद चौक दूदाधारी मन्दिर को शामिल करते हुए सांगानेरी गेट पर शिव मन्दिर तक यहां से बाँहें मुड़कर नेहरू रोड पर भीलवाड़ा अरबन कापरेटिव बैंक को शामिल करते हुए पाठक कॉम्प्लेक्स तक।
48	48	नेहरू रोड पर स्थित राजस्थान बीज भण्डार विश्वकर्मा की गली में चलते हुये विश्वकर्मा मंदिर को दाँये हाथ छोड़कर बांयी और गोपाल डेयरी की गली में चलकर दांयी और मुड़कर संकट मोचन हनुमान मंदिर को शामिल करते हुये पाण्डिया किराणा स्टोर एंव डेयरी बूथ को शामिल करते हुये मिस्त्री सिकन्दर बक्स की गली

		तक यहां से बांयी और मुड़कर रजा स्टेशनर्स को दांयी हाथ छोड़ते हुये, रजा स्टेशनर्स के सामने की गली में चलकर प्रेम देवी सुराणा के मकान तक, यहां से शिवाजी मार्ग पर पश्चिम दिशा में चलते हुए दांयी और हरिओम किराणा स्टोर शिव मंदिर वाली गली में मुड़कर बाएँ घुमकर आगे चलकर राधे कृष्णा जनरल स्टोर तक से नारायण सोनी तक, यहां से बाएँ घुमकर फियादा मुस्ताद के मकान तक गली से दाँये मुड़कर टेगोर स्कुल को शामिल करते हुए उदय लाल अहीर के मकान तक, गली से बाएँ मुड़कर, किशन मुरारी शर्मा के मकान तक गली से दाँये मुड़कर मातेश्वरी फलोर मिल्स एवं उद्योग की गली में बांयी ओर लेटेस्ट डीजे को शामिल करते हुये आगे चलकर दाँये मुड़कर विजय मिष्ठान भण्डार की गली से खेड़ाखूट माता जी रोड तक, विजय मिष्ठान भंडॉ. र की गली से बाएँ मुड़कर दक्षिण दिशा में चलकर नेहरू रोड पर लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर तक, यहां से नेहरू रोड पर स्थित राजस्थान बीज भण्डार तक समस्त कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित हैं।
49	49	भीलवाड़ा सांगानेर रोड पर शिवाजी मार्ग से प्रारम्भ होकर, शिवाजी मार्ग के आगे चलते हुए, प्रेम देवी सुराणा के मकान तक यहां से बांयी ओर की गली में मुड़कर रजा स्टेशनर्स, मिस्त्री सिकन्दर बक्स की गली तक, सिकन्दर बक्स की गली में, सिकन्दर बक्स के मकान तक, यहां से उत्तर दिशा में चलकर पण्डित किराणा स्टोर एवं डेयरी बुथ को दाँये हाथ छोड़कर बांयी ओर मुड़कर श्री गर्ग पोशाक के मकान के सामने की गली में चलकर बांयी और गोपाल डेयरी की गली में चलकर बांयी ओर मुड़कर विश्वकर्मा मन्दिर को शामिल करते हुये नेहरू रोड तक यहां से सांगानेरी गेट होते हुये पथवारी को शामिल करते हुये भीलवाड़ा सांगानेर रोड पर शिवाजी मार्ग तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित है।
50	50	संगानेर गेट से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में चलकर नाले को क्रोस करके बांयी ओर मुड़कर मस्जिद ई लेबा तक, यहां से शिवम वाटिका को दांयी ओर छोड़कर चारभुजा मन्दिर को छोड़ते हुए पूर्व की दिशा गोपाल लाल असावा को शामिल करते हुए उदयलाल आचार्य देव नारायण फलोर मिल्स को शामिल करते हुए भीलवाड़ा सुवाणा मेन रोड तक यहां से पश्चिम दिशा में चलकर पुलिस चौकी तक यहां से सांगानेर गेट तक की समस्त कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित हैं।
51	51	संगानेरी गेट तिलकनगर चौराहा से दक्षिण दिशा तरफ रघुनाथ मन्दिर को शामिल करते हुए, गौशाला के सामने होते हुए, आदिनाथ जैन मन्दिर को शामिल करते हुए, पुरानी धान मण्डी में बद्रीविशाल मन्दिर व सत्यनारायण मन्दिर तक यहां पूर्व की तरफ जागेटिया जी की चक्की से आमलियो भैरूजी का मन्दिर व स्कूल को शामिल करते हुए सुलभ कोम्पलेक्स व कम्यूनिटी हाल होते हुए पंचमुखी पुलिया नाला तक।

		यहां से उत्तर दिशा में पंचमुखी मोक्षधाम को दृश्ये हाथ रखते हुए सड़क-सड़क चलते हुए तिलकनगर रोड तक श्री मुकेश गोधा के गोदाम तक। यहां से पश्चिम दिशा में सांगानेर गेट तिलक नगर चौगहा श्री नाथूलाल डीडवानिया की दुकान तक।
52	52	पंचमुखी मोक्षधाम से दक्षिण की ओर होते हुए पार्क को शामिल करते हुए पंचमुखी बाग को शामिल करते हुए पूर्व में भूरा विहार के कोने से उत्तर के सिद्धीविनायक हॉस्पिटल के सामने होते हुए केनरा बैंक को शामिल करते हुए पश्चिम में बक्ता बाबा को शामिल करते हुए नाले पर मुकेश गोधा के गोदाम तक यहां से दक्षिण के नाले सहारे-सहारे मोक्षधाम तक।
53	53	अंहिसा सर्कल से दक्षिण तेजसिंह सर्कल होते हुए सच्चिया माता मंदिर के पास नहर तक, यहां से बाएँ घुमकर नहर के सहारे-सहारे राधेनगर को छोड़ते हुए गोकुल बिहार को शामिल करते हुए नहर के सहारे-सहारे परिषद सीमा तक। परिषद सीमा सीमा होते हुए 200 फिट रोड होते हुए सुवाणा रोड पर लाडपुरा भीलवाड़ा चोराये से पश्चिम की ओर और ग्रामधन को लेते हुए राज श्री भोजनालय के सामने होते हुए केन्द्रीय विधालय के सामने होते हुए अंहिसा सर्कल तक।
54	54	कोटा रोड पर अंहिसा सर्कल से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर सांगानेर गेट की तरफ चलते हुये Allied Auro Apncies के सामने की गली श्री नाथ आटो रिपेयर्स को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा उदयलाल आचार्य देव नारायण फलोर मिल्स तक यहां से पश्चिम दिशा में गोपालाल असावा के मकान के सामने से होकर चारभुजा मन्दिर तक यहां से शिवम वाटिका को शामिल करते हुए मजिस्ट्रेट ई लेबा तक यहां से नहर के सहारे-सहारे होते हुए तिलक नगर रोड तक यहां से पूर्व में दिशा में चलकर सिद्धी विनायक हॉस्पिटल मेन रोड तक यहां से उत्तर दिशा बांयी में अंहिसा सर्कल तक की समस्त कुलिया बस्ती सम्मिलित है।
55	55	सांगानेर चौराहे पेटोल पम्प से प्रारम्भ होकर कोटा रोड पर पूर्व दिशा में चलते हुये परिषद सीमा तक यहां से उत्तर में परिषद सीमा के सहारे-सहारे चौखी ढाणी को शामिल करते कोटा धाम रोड पर पश्चिम दिशा गुलाम वाटिका तक चलते हुये समस्त बाई ओर की बस्ती शामिल करते हुये गुलाम वाटिका बाग से दांयी ओर मुड़कर उत्तर दिशा में जिन्दल शा को छोड़ते हुये बांयी ओर मुड़कर कोठारी नदी के सहारे-सहारे चलकर भीलवाड़ा -सांगानेर की पुलिया तक यहां से बांयी ओर मुड़कर सोनु रिसोर्ट उत्सव रिसोर्ट को शामिल करते हुये बाहेती की बगीची चौराहा पेटोल पम्प तक को समस्त कुलिया बस्ती सम्मिलित हैं।
56	56	भीलवाड़ा शाहपुरा सड़क पर परिषद सीमा से प्रारम्भ होकर सांगानेर रोड दक्षिण में चलते हुए गाडोलिया बस्ती को दृश्ये छोड़ते हुए पंचमुखी बालाजी पुलिस चौकी पशु

		चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज को शामिल करते हुए शाहपुरा दरवाजे तक वीर तेजाजी मन्दिर मुढ़ते हुए मेन रोड से दाँये मुड़कर शाहपुरा दरवाजा में से होकर बड़लेश्वर महादेव मन्दिर के सामने वाली रोड पर दक्षिण दिशा से चलते हुए नामदेव मन्दिर से नामदेव मन्दिर से पश्चिम दिशा में देवनारायण मन्दिर से मुड़कर बाईं ओर की बस्ती रावला चौक सांगानेर बस्ती टेम्पो स्टैण्ड को मनोहर सिंह मेहता स्कूल को शामिल करते हुए दरगाह तक यहां से भीलवाड़ा की ओर दक्षिण दिशा में कोठारी नदी तक यहां से कोटारी नदी के सहारे-सहारे पूर्व दिशा में चल कर कुवाडँ। गाव की सीमा तक यहां से दक्षिण दिशा में चलकर कुवाडँ। गाँव जिन्दल-शॉ के एस. टी. पी. को शामिल करते हुए गुलाब वाटिका तक दक्षिण दिशा में चलते हुए राजीव गांधी रिंग रोड पर पूर्व दिशा में मुड़कर सड़क पर आगे की ओर नगर परिषद सीमा तक यहां से पून उत्तर दिशा में परिषद सीमा के सहारे-सहारे कोठारी नदी तक कोठारी नदी से इसी दिशा में परिषद सीमा के सहारे-सहारे ट्रॅचिंग ग्राउंड कीर खेड़ा एवं सालरा गाव को सम्मिलित करते हुए भीलवाड़ा शाहपुरा पर परिषद सीमा तक की बाईं ओर की कुलिया बस्ती सम्मिलित है।
57	57	सांगानेर रोड कमेटी को पार कर कोठारी नदी की पुलिया से चलते हुये ईदगाह से पूर्व बांयी और से मुड़कर ईदगाह को छोड़ते हुये बांयी और की बस्ती को शामिल करते हुये उत्तर दिशा मे आगे की ओर चलते हुये देव नारायण मंदिर की तरफ एवं दांयी और मुड़कर नानदेव मंदिर को छोड़ते हुये उत्तर दिशा मे आगे की ओर बलदेश्वर महादेव को शामिल करते हुये आगे की ओर चल कर दक्षिण दिशा मे मुड़कर शाहपुरा दरवाजे तक यहां से बांयी और मुड़कर उत्तर की ओर शाहपुरा दरवाजा तेजाजी मंदिर समुदायिक भवन कर वाला कुआ गाड़ोलिया बस्ती को बांयी और सम्मिलित करते हुये इसी रोड पर सुवालका की दुकान को बाँहँ हाथ शामिल करते हुये सावरिया तिराहे मे परिषद सीमा यहां से पश्चिम दिशा मे परिषद सीमा होते हुये पीछोला तालाब कोठारी नदी नाला को शामिल करते हुये पालड़ी की औरजाने वाली सड़क तक स्थित परिषद सीमा तक यहां से पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर परिषद सीमा होते हुये नदी के सहारे-सहारे सांगानेर रोड पर ईदगाह तक समस्त पुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित है।
58	58	सांगानेर रोड पर उमराव पैलेस के सामने स्थित बालाजी मन्दिर से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा में मोती बावजी का स्थान बालाजी आदि को शामिल करते हुए कोठारी नदी तक यहां से पश्चिम दिशा में नदी के सहारे-सहारे चल कर पारीक भवन तक पारीक भवन से राजीव गांधी रिंग रोड क्रॉस करके सुरक्षा द्वार नं 26 में से होते हुए 10 एवं 17 आर सी व्यास के के दीप के मकान तक, 10 एवं 17 से मेन रोड

		क्रॉस करके 9 जी 1 के सामने से होकर सुरक्षा द्वार नं0 12 तक, सुरक्षा द्वार नं0 12 से पूर्व दिशा की ओर महेश हॉस्पिटल होते हुए सांगानेर रोड पर उमराव पैलेस के सामने स्थित बालाजी मन्दिर तक को कुलिया बांयी बस्ती को सम्मिलित करते हुए।
59	59	देवरिया बालाजी कोने पर स्थित सरस डेयरी बूथ से पूर्व दिशा की ओर देवरिया बालाजी की बातेंड़ी के सहारे-सहारे होते हुए, दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर मातेश्वरी नमकीन के मकान पन्ना लाल नामक के मकान को शामिल करते हुये पूर्व दिशा में चलकर ई 791 कृतिका हाउस ई-791 को दाँये हाथ छोड़कर दक्षिण दिशा में ई 800/2 मुकेश सोनी के आगे मकान तक यहां से ई-631 एच एन गुर्जर के मकान तक शिव मन्दिर वाली गली में हरीओम किराणा स्टोर को शामिल करते हुए शिवाजी मार्ग तक शिवाजी मार्ग में पूर्व दिशा में चलकर सांगानेर मेन रोड तक, मेन रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए मोती बावजी तिराहा तक, यहां से पश्चिम दिशा में महेश हॉस्पिटल चौराहे होते हुए, देवरिया बालाजी के उत्तर दिशा के कोने पर स्थित सरस डेयरी बूथ तक की कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित है
60	60	राजीव गांधी उघान के कोने से पूर्व दिशा की ओर हजारंगा हरिसेवा धर्मशाला के आगे सरस डेयरी बूथ तक, डेयरी बूथ उत्तर दिशा की ओर भंसाली हॉस्पिटल की तरफ मेन रोड क्रॉस करके सुरक्षा द्वार नं0 12 से 9 जी 1 के मकान तक, 9 जी 1 से मेन रोड क्रॉस करके पारीक भवन तक पारीक भवन से नदी के सारे सारे केशव हॉस्पिटल के आगे इन्दिरा गांधी राजीव गांधी रिंग रोड क्रॉस करके सुरक्षा द्वार नं0 26 ए में होकर इन्दिरा गांधी सामुदायिक भवन की ओर जाकर बांयी ओर मुड़कर मेन रोड क्रॉस करके 2 जे 8 की गली में श्री नाथ पार्क की गली में बांयी ओर मुड़कर सुरक्षा द्वार नं 6 सुरक्षा द्वार नं0 6 से राजीव गांधी चौराहा (पुराना मजदूर चौराहा) से राजीव गांधी उघान तक की समस्त कुलिया बस्ती सम्मिलित करते हुए
61	61	राजीव गांधी रिंग रोड टंकी के बालाजी के सामने सुरक्षा द्वार नं0 28 से छोटी पुलिया जाने वाली सड़क की बाई ओर की बस्ती को शामिल करते हुये मदर टेरेसा स्कूल से बांयी ओर मुड़कर आगे दांयी ओर ओसतवाल से आर सी व्यास मकान नं0 5 औ 1-2 से मकान नं0 6 ए 17 गोपीकृष्ण पाटोदिया के मकान तक गली की बांयी ओर मुड़कर शिवाजी गार्डन रोड पर दांयी ओर नवल किशोर जैन आर सी व्यास मकान नं 5 ए 27 के सामने की गली में मुड़कर आर के कोलोनी रोड की ओर हेमन्त प्रोविजन स्टोर पानी की टंकी पी एच ई डी प्लाट की बांयी ओर मुड़कर मेन रोड पर चल कर बांयी ओर सुरक्षा द्वार नं0 6 से कोलोनी के अन्दर की रोड को शामिल करते हुए गार्डन के कोने के सामने श्री नाथ पार्क की ओर जाकर दांयी

		मुडकर आर सी व्यास मकान नं0 2 के 12 के सामने के मकान को जोड़ते हुए पार्क दीनदयाल के कोने से दांयी ओर जाकर पार्क के मेन गेट तक मेन गेट से आर सी व्यास मकान नं0 2 आई 8 के सामने गली में जाकर आर सी व्यास मकान नं0 2 आई 7 से दांयी ओर मुडकर इन्दिरा गांधी सामुदायिक भवन तक के कोने पर मेन रोड वाली बांयी ओर मुडकर राजीव गांधी रिंग रोड तक सुरक्षा द्वार 26 ए वहां से बांयी ओर मुडकर सुरक्षा द्वार नं0 28 तक राजीव गांधी रिंग रोड तक।
62	62	अजमेर रोड पर गायत्री आश्रम के पास पाण्डु के नाले की पुलिया में पूर्व दिशा की ओर सामुदायिक भवन आर. के. कॉलोनी की ओर चलते हुये मेन रोड क्रॉस करके बांयी ओर मुडकर पानी की टंकी पी.एच.ई.डी. प्लाट में उत्तर दिशा की ओर शिवाजी गार्डन की रोड पर 6 ए 17 से 5 ओ 1,2 आर. सी. व्यास एम. के. ओसतवाल के मकान के बांयी ओर मुडकर मदर टेरेसा स्कूल की मेन रोड के सुरक्षा द्वार नं. 30 तक, यहां से दांयी ओर मुडकर सुरक्षा द्वार 28 से होकर नदी तक नदी के सहारे-सहारे पाण्डु के नाले तक पाण्डु के नाले से दक्षिणी पूर्वी दिशा में पाण्डु के नाले से दक्षिणी पूर्वी दिशा में पाण्डु के नाले सहारे-सहारे छोटी पुलिया बड़ी पुलिया होते हुये गायत्री आश्रम के पास पाण्डु के नाले की पुलिया तक की समस्त कुलिया बस्ती सम्मिलित है।
63	63	नगर विकास न्यास के सामने अण्डर ब्रिज के दक्षिण दिशा की ओर पटरी के सहारे गायत्री आश्रम तक, यहां से अजमेर मेन रोड क्रॉस करके नाले पर बनी पुलिया से प्रारम्भ कर नाले के सहारे-सहारे सुभाषनगर से बस्ती को शामिल कर बड़ी पुलिया छोटी पुलिया को लेकर सीधे नाले की राजीव गांधी रिंग रोडके पास पाण्डु के नाले की पुलिया तक यहां से दक्षिण दिशा में रामदेव मन्दिर तक मन्दिर से मेन रोड से देबीलाल धोबी के मकान की ओर दाँये घुमकर यहां से एफ 3 देवनारायण भण्डार होते हुए गोतम किराणा स्टोर तक यहां से मेन रोड क्रॉस करके विवेकानन्द के सामने से गुजर के आर एस सोडॉ. नी के मकान से सुभाषनगर स्कूल के सामने से गुजर के ए वन मोटर्स की पतली गली में होकर नगर विकास के सामने अण्डर ब्रिज तक की कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित कर।
64	64	नगर विकास न्यास के सामने अण्डर ब्रिज से अजमेर मेन रोड क्रॉस करके ए वन मोटर्स को गली में राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सुभाष नगर तक स्कूल के कोने से बांयी ओर मुडकर सोडॉ. नी जी के मकान के सामने होते हुए बांयी ओर बी 254 के पास से मुडकर विवेकानन्द पार्क के सहारे-सहारे चल कर बांयी ओर मुडकर गोतम किराणा स्टोर मेन रोड तक यहां से पूर्व दिशा में गोतम किराणा स्टोर के पास गली के सहारे-सहारे ई 175 होते हुए एफ 3 देवनारायण बस भण्डार तक यहां

		से दाँये धूमकर टेबीलाल धोबी के मकान तक मकान से बाएँ धूमकर मेन रोड से रामदेव मन्दिर को होते हुए राजीवगाँधी रिंग रोड टंकी के बालाजी की पुलिया तक। पुलिया से महेश किरणा स्टोर के सामने से होते हुए सामने गली में नाकोड़ॉ। प्रोविजन स्टोर से होते हुए हरीओम स्टेशनश 107 सुभाषनगर तक यहाँ से बायोस्कोप तक मेन रोड क्रॉस करके अण्डर ब्रिज से उत्तर पश्चिमी की ओर रेलवे पटरी के सहारे-सहारे नगर विकास न्यास के सामने अण्डर ब्रिज तक कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित करते हुए।
65	65	अजमेर रोड जोधड़ॉ। स ग्रिड के पास परिषद सीमा से रेलवे पटरी के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा में बायोस्कोप के सामने रेलवे अण्डर ब्रिज तक रेलवे अण्डर ब्रिज से बांयी ओर पूर्व दिशा में अजमेर मेन रोड क्रॉस करके बायोस्कोप के पास वाली गली में चलते हुए हरीओम स्टेशनर्स 107 सुभाषनगर के सामने से गुजरते हुए अरुणोदय पब्लिक स्कूल के सहारे मेन रोड पर मेन रोड से महेश किरणा होते हुए राजीव गाँधी रिंग रोड टंकी के बालाजी के पास पुलिया तक पुलिया से नदी के सहारे-सहारे अजमेर रोड जोधड़ॉ। स ग्रिड के पास परिषद सीमा तक कुलिया बांयी बस्ती सम्मिलित करते हुए।
66	66	पुलिस लाईन के कॉर्नर से प्रारम्भ कर पटरी के सहारे-सहारे सन्तोषी माता के मंदिर को शामिल करते हुए लोटसबेली स्कूल अंजुबा नर्सरी चपरासी कोलोनी, कोलोनी से रेलवे लाईन के सहारे-सहारे 100 फिट सडक तक यहाँ से बाएँ धूमकर 100 फिट रोड पर चल कर मालोला रोड के यहाँ से मालोला रोड क्रॉस कर पश्चिम दिशा में धुमाव तक यहाँ से पुनः दक्षिण दिशा में नाले के सहारे-सहारे चारभुजा किराने तक यहाँ से हठिले हनुमान को बाएँ शामिल करते हुए भगवती आट को शामिल करते हुये मुख्य सडक पुलिस लाईन व दक्षिणी पश्चिम कोने तक यहाँ से पूर्व दिशा में सडक को सहारे-सहारे चलते हुए पुलिस लाईन को शामिल करते हुये रेलवे लाईन अण्डर ब्रिज के पास पुलिस लाईन के कोने तक।
67	67	लक्ष्मी वाटिका के पास संगम विध्या निकेतन स्कूल से प्रारम्भ कर दाँये छोड़ते हुए रोड के साथ साथ धूमते हुए महावीर फ्लोर को दाँये छोड़ते हुए गोविन्द वाटर को शामिल करते हुए सोनुफेलिकेटर को दाँये छोड़ते हुए यहाँ से दाँये मुडकर मनोज तेल की घानी अक्षरम रिसोर्ट को शामिल करते हुए। हठिले हनुमान जी को दाँये छोड़ते हुए ए वन मीट शोप को बाएँ शामिल करते हुए पाण्डू का नाला क्रॉस करते हुए बाएँ धूमकर नाले के सहारे-सहारे पानी की टकी को बाएँ शामिल करते हुए देड़ॉ। तवाल प्रोपटी, टिकम टेन्ट हाउस, गोतम पब्लिक स्कूल, आशाराम चोराया पर शिव शक्ति मेडिकल को बाएँ शामिल करते हुए आशाराम आश्रम चौराहे से बाएँ धूमकर मेन रोड

		<p>पर चल कर देवनारायण मेडिकल स्टोर तक यहाँ से दाँये घुमकर आलटीफिश एम्पोरियम को बाँहं शामिल करते हुए यहाँ से गायत्री नगर सामुदायिक भवन के पीछे वाली रोड से बाँहं घुमकर अनुराधा फैन्सी स्टोर को दाँये छोड़ते हुए बाँहं की तरफ सरस पार्लर को शामिल करते हुए जय अम्बे किराणा स्टोर को दाँये छोड़ते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हुए बंगला रोड क्रॉस करते सीधे सीधे जुजार जी डेयरी को बाँहं शामिल करते हुए यहाँ से बाँहं घुमकर पाण्डू के नाले के सहारे-सहारे चलते हुए सोनु किराणा स्टोर आदित्य किराणा को बाँहं शामिल करते हुए दाँये घुमकर पाण्डू नाला क्रॉस कर बाबाधाम के पास पानी की टकी को शामिल करते हुए यहाँ से बाँहं घुमकर करणी पैलेस को दाँये छोड़ते हुए जगदीश सेन के मकान को दाँये छोड़ते हुए यहाँ से दाँये घूमकर बाइट फ्युचर स्कूल को बाँहं शामिल करते हुए भूखंड संख्या 65 रूप नगर जगदीश दास वैष्णव (बालाजी) भवन शामिल करते हुए यहाँ से बाँहं घूमकर राधेकृष्ण मन्दिर को दाँये छोड़ते हुए प्रिया कलेक्शन को सामने वाले रोड पर छोड़ते हुए श्री शनि एलुमिनियम को दाँये छोड़ते हुए। पनघट से बाँहं घुमते हुए गणपति किराणा स्टोर को दाँये छोड़ते हुए यह से दाँये घुमकर कुमावत के मकान तक यहाँ से बाँहं घुमकर पनघट तक रिलाइन्स टायर को दाँये छोड़ते हुए। प्रहलाद हलवाई को शामिल करते हुए रोड क्रॉस करते हुए सेनी किराणा स्टोर को दाँये छोड़ते हुए लक्ष्मी फ्लोरमिल्स को दाँये छोड़ते हुए लक्ष्मी वाटिका को दाँये छोड़ते हुए। यहाँ से पुनः संगम विद्या निकेतन तक।</p>
68	68	<p>मलोला रोड पर शिव शक्ति मेडिकल से प्रारम्भ कर सामुदायिक भवन, श्री नाथ स्टोन निरवा एकेडमी हनुमान मन्दिर को बाया शामिल करते हुए मालोला रोड से दाँये मुड़कर अण्डर ब्रिज तक यहाँ से बाँहं घुमकर जोधड़ौं। स रोड पर परिषद सीमा तक परिषद सीमा से होते हुए फन सिटी वाटर पार्क को शामिल करते हुए ऐवर ग्रीन रेजिडेन्सी अजंली किराणा स्टोर पावर हाउस को बाँहं शामिल कर 100 फीटरोड क्रॉस कर आशाराम आश्रम रोड पर चलते हुए भैरूनाथ किराणा श्री शक्ति सीमेन्ट सपना वाटिका आर .वी ग्लोब स्कूल को दाँये छोड़ते हुए आशाराम रोड पर चलकर पनघट को दाँये छोड़ बाँहं घुमकर जय अम्बे किराणा को बाँहं शामिल करते हुए सरस पार्लर को दाँये छोड़ते हुए अनुराधा फैनशी स्टोर को बाँहं शामिल करते हुए सामुदायिक भवन के पीछे वाले कोने तक यहाँ से दाँये घुमकर आर्ट फिश एक्वारियम को दाँये छोड़ते हुए बाँहं घुमकर रोड पर शिव शक्ति तक समस्त बांयी कुलिया बस्ती।</p>

69	69	परिषद सीमा से प्रारम्भ कर एच टी लाईन की सड़क को क्रॉस करते हुए एवं आगे बढ़ते हुए 100 फीट सड़क को पार करते हुए खेतों के रास्ते मीरा नगर रोड पर पहुंच कर यहां से बाएँ घुमकर अहिंसा बंगलो को शामिल करते हुए गणपति किराणा को दाँये छोड़ते हुए पनघट तक यहां से दाँये मुड़कर नाले के सहारे-सहारे मालोला रोड पर पहुंचकर शिव शक्ति मेडिकल स्टोर तक यहां से बाएँ घुमकर आशाराम आश्रम रोड पर चलते हुए 100 फीट रोड को पार कर पावर हाउस को दाँये छोड़ते हुए एवं धीरज जी की वाटिका को बाएँ शामिल करते हुए शारदा एवरग्रीन पार्क सोसायटी का शामिल करते हुए एच टी लाईन की सड़क को क्रॉस करते हुए परिषद सीमा तक।
70	70	पांसल रोड पर कानी बाई बजाज से पश्चिम की ओर सड़क पर चलते हुए मंशापुर्ण महादेव को शामिल करते हुए मंसूरी फ्रेश फैशन के कोने से दायें तरफ घुमकर उत्तर में चलते हुए ग्रीनवेली स्कूल को शामिल करते हुए अहिंसा बगले को छोड़ते हुए तिराहे तक यहां से मुख्य सड़क पर बाएँ मुड़कर पश्चिम दिशा में पांसल के पुराने कच्चे रास्ते पर होते हुए खेतों में बने हुए समस्त मकानों को शामिल करते हुए पिलर नं. 11 तक, पिल्लर नं. 11 से पांसल रोड होते हुए राम हनुमान मन्दिर से दक्षिण होते हुए खेतों में होते हुए नगर परिषद सीमातक यहां से पूर्ण की ओर मुड़ते हुए छोटी नहर क्रॉस कर जवाहर नगर शमशान घाट की बातें तक यहां से उत्तर दिशा में मुड़कर जवाहर नगर की मुख्य सड़क पर होते हुए श्री कैलाश जी टेलर की आरा मशीन वेदवंती शिक्षण संस्थान लखन सिन्धी की दुकान के सम्मिलित करते हुए श्री दुर्गा दास शर्मा की दुकान एवं मकान को शामिल करते हुए पांसल रोड को क्रॉस कर पूर्व दिशा में मुड़कर विश्वकर्मा भवन भोपालमाईनिंग के मुख्यद्वार तक बाएँ बस्ती को शामिल करते हुए पुनः पांसल रोड पर समस्त कुलिया बांयी बस्ती।

आयुक्त

नगर परिषद श्रीलवाड़ा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।